



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1945 (श10)

(सं0 पटना 662) पटना, बुधवार, 2 अगस्त 2023

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2023

सं० 11/नियमा-01-01/2020-1719—“बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023”

भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 ब (12वीं सूची) तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा शहरी क्षेत्र के राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति प्रोन्नति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार नगर निकाय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

**1. प्रस्तावना:—**

राज्य के नगर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार नगर निकाय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 लागू है, परन्तु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियोजित होने पर सेवा निरन्तरता के लाभ का प्रावधान उक्त नियमावली में नहीं होने के कारण बिहार नगर निकाय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 में संशोधन अपेक्षित हो गया है।

**2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:—**

(क) यह नियमावली “बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2023” कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना बिहार नगर निकाय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के निर्गत होने की तिथि दिनांक-20.08.2020 से प्रभावी होगी।

### 3. नियम-12 का संशोधन:-

उक्त नियमावली के नियम-12 उप नियम (vii) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

#### \*वेतन संरक्षण :-

पूर्व से कार्यरत प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक यदि वर्तमान नियोजन इकाई में अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में उच्च कोटि के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देने के इच्छुक हों तो वर्तमान नियोजन प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

वर्तमान नियोजन इकाई अथवा किसी अन्य नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरन्तरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण हेतु अनुमान्य होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
के०के० पाठक,  
अपर मुख्य सचिव।

*The 1<sup>st</sup> August 2023*

### No. 11 / Niyama-01-01 / 2020-1719--“Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023”

*In exercise of power conferred under Article 243 Ba (12<sup>th</sup> Schedule) of the Constitution of India and Section 45, 47(4) and 419 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Governor of Bihar hereby makes the following amendment in the Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 for determining the appointment / promotion and service conditions of Teacher / Librarian in the Government, Nationalized, Project Girls and Upgraded Secondary / Senior Secondary Schools in the urban area:*

#### 1. Preamble: -

The Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 is in force for determining the service conditions of Teachers and Librarians in Secondary and Senior Secondary Schools of the urban areas of the State, however, as there is no provision for benefit of continuity of service for teachers of Primary and Middle schools when they are appointed as Secondary and Senior Secondary teachers, amendment in the Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020 is required.

#### 2. Short title, extent and commencement: -

- (A) This Rules shall be called ‘Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023’.
- (B) It extends to the whole of the State of Bihar.
- (C) This shall come into force from the date of notification – 20.08.2020 of Bihar Municipal Body Secondary and Senior Secondary School Service (Appointment, Promotion, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2020.

**3. Amendment of Rule – 12: -**

Rule 12 sub-rule (vii) of the above mentioned Rules is substituted as follows:

**“Pay Protection: -**

If the Primary and Secondary teachers working from earlier are willing to apply for employment on a higher level post in either their present recruitment unit or any other recruitment unit, they can participate in the process of appointment after obtaining permission from their present Appointing Authority.

In the event of being employed in their present recruitment unit or any other recruitment unit on a corresponding higher post, the benefit of only pay protection shall be given to them.”

**By Order of the Governor of Bihar,**  
**K. K. Pathak,**  
*Additional Chief Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 662-571+3000-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>